



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012020-215597
CG-DL-E-20012020-215597

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]
No. 251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2020/पौष 27, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2020/PAUSHA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020

का.आ. 262(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1211(अ) तारीख 07 मार्च 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा दिल्ली राज्य के वेस्ट जिले में NH344N के कि.मी. 0 से कि.मी.7 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14 मार्च 2019" को "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "दैनिक जागरण" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

दिल्ली राज्य के वेस्ट जिले में NH344N के कि.मी. 0 से कि.मी.7 के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: दिल्ली		जिले का नाम: वेस्ट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पंजाबी बाघ				
	गांव का नाम: नीलवाल				
1	152 min	सरकारी (ग्राम सभा)	रास्ता	0.0885	सरकारी (ग्रामसभा) ()
2	233 min	सरकारी (ग्राम सभा)	रास्ता	0.1012	सरकारी (ग्रामसभा) ()
3	38//15/2 min	निजी	कृषि	0.0042	हरीश, बिजेन्द्र, सोनू पुत्रगण पूर्ण सिंह समभाग ग्रामवासी/ एवम सरकारी (38//15/2)
4	38//16 min	निजी	कृषि	0.215	हरीश, बिजेन्द्र, सोनू पुत्रगण पूर्ण सिंह समभाग ग्रामवासी (38//16)
5	39//16 min	निजी	कृषि	0.1518	रोशन लाल पुत्र लज्जे राम 6/ 10 भाग, सूरत सिंह पुत्र लज्जेराम 1/ 10 भाग, नरेश कुमार, अशोक कुमार, भरद्वाज, जय प्रकाश, पुत्रान हुक्म चंद समभाग 1/10 भाग, जीवन लाल पुत्र लज्जेराम 1/ 10 भाग, अनूप सिंह पुत्र

					लज्जेराम 1/ 10 भाग, ग्रामवासी (39//16)
6	39//17 min	निजी	कृषि	0.2023	कमलजीत खोसला पुत्र प्रेमचंद खोसला, आर/ओ 13/19 पंजाबी बाग दिल्ली (39//17)
7	39//18/2 min	निजी	कृषि	0.2529	देव किशन खोसला पुत्र प्रेमचन्द खोसला आर/ओ 13/19 पंजाबी बाग दिल्ली (39//18/2)
8	39//19 min	निजी	कृषि	0.2909	बलवान सिंह, रामचन्द्र, जयकरण, सन्तराम ईश्वर सिंह, अजीत सिंह पुत्रगण प्रभू समभाग ग्रामवासी एवं सरकारी (39//19)
9	39//20 min	निजी	कृषि	0.2909	बलवान सिंह, रामचन्द्र, जयकरण, सन्तराम ईश्वर सिंह, अजीत सिंह पुत्रगण प्रभू समभाग ग्रामवासी एवं सरकारी (39//20)
10	39//23 min	निजी	कृषि	0.0253	कमलजीत खोसला पुत्र प्रेमचंद खोसला, आर/ओ 13/19 पंजाबी बाग दिल्ली एवं सरकारी (39//23)
11	39//24 min	निजी	कृषि	0.0759	नवल किशोर खोसला पुत्र प्रेमचंद खोसला 13/19 पंजाबी बाग एक्सटेंशन (39//24)
12	39//25 min	निजी	कृषि	0.1012	नवल किशोर खोसला पुत्र प्रेमचंद खोसला 13/19 पंजाबी बाग एक्सटेंशन ()
13	40//18/1 min	निजी	कृषि	0.0042	भागीरथ लाल पुत्र हरदे राम, 1/ 6 भाग, धर्मेन्द्र कुमार, पवन कुमार पुत्रगण रवि प्रकाश समभाग 1/ 6 भाग, ज्ञान प्रकाश, घनश्याम पुत्रगण देशराम समभाग 1/ 3 भाग, सुशील

					कुमार पुत्र कृष्ण 1/ 3 भाग ग्रामवासी ()
14	40//18/2 min	सरकारी(ग्राम सभा)	कृषि	0.0126	सरकारी (ग्रामसभा) ()
15	40//18/3 min	निजी	कृषि	0.0042	वजीर सिंह, लखमी चन्द पुत्रगण रति राम समभाग 1/ 3 भाग, गौरव (नाबालिग) पुत्र दिलबाग सिंह 1/6 भाग, जय वीर सिंह, जसवीर सिंह बलजीत सिंह पुत्रगण चन्द्र भान समभाग 1/ 2 भाग, ग्रामवासी ()
16	40//19 min	निजी	कृषि	0.0379	वजीर सिंह, लखमी चन्द पुत्रगण रति राम समभाग 1/ 3 भाग, गौरव (नाबालिग) पुत्र दिलबाग सिंह 1/6 भाग, जय वीर सिंह, जसवीर सिंह बलजीत सिंह पुत्रगण चन्द्र भान समभाग 1/ 2 भाग, ग्रामवासी ()
17	40//20 min	निजी	कृषि	0.0885	वजीर सिंह, लखमी चन्द पुत्रगण रति राम समभाग 1/ 3 भाग, गौरव (नाबालिग) पुत्र दिलबाग सिंह 1/6 भाग, जय वीर सिंह, जसवीर सिंह बलजीत सिंह पुत्रगण चन्द्र भान समभाग 1/ 2 भाग, ग्रामवासी ()
18	40//21 min	निजी	कृषि	0.1771	वजीर सिंह, लखमी चन्द पुत्रगण रति राम समभाग 1/ 3 भाग, गौरव (नाबालिग) पुत्र दिलबाग सिंह 1/6 भाग, जय वीर सिंह, जसवीर सिंह बलजीत सिंह पुत्रगण चन्द्र भान समभाग 1/ 2 भाग, ग्रामवासी ()
19	40//22 min	निजी	कृषि	0.215	बलजीत सिंह, अजीत सिंह, तारीफ, प्रदीप पुत्रगण जयसिंह समभाग ग्रामवासी ()

20	40//23 min	निजी	कृषि	0.2403	जय सिंह पुत्र हरलाल ग्रामवासी ()
21	40//24 min	निजी	कृषि	0.2403	मेसेर्ज रुद्रप्रिया रियल एस्टेट प्रा० लि० 12 रिंग रोड लाजपत नगर दिल्ली मार्फत सिगनेचरी महेश कुमार अग्रवाल पुत्र राधा रमन अग्रवाल 12 रिंग रोड लाजपत नगर दिल्ली ()
22	40//25/1 min	निजी	कृषि	0.1012	मेसेर्ज रुद्रप्रिया रियल एस्टेट प्रा० लि० 12 रिंग रोड लाजपत नगर दिल्ली मार्फत सिगनेचरी महेश कुमार अग्रवाल पुत्र राधा रमन अग्रवाल 12 रिंग रोड लाजपत नगर दिल्ली ()
23	40//25/2 min	निजी	कृषि	0.0506	जीत सिंह, संजय पुत्र मेहर सिंह उर्फ दयानन्द समभाग ग्रामवासी ()
24	40//29	निजी	गैर कृषि	0.0084	वजीर सिंह, लखमी चन्द पुत्रगण रति राम समभाग 1/ 3 भाग, गौरव (नाबालिग) पुत्र दिलबाग सिंह 1/6 भाग, जय वीर सिंह, जसवीर सिंह बलजीत सिंह पुत्रगण चन्द्र भान समभाग 1/ 2 भाग, ग्रामवासी ()
25	41//21 min	निजी	कृषि	0.0042	जीत सिंह, संजय पुत्र मेहर सिंह उर्फ दयानन्द समभाग ग्रामवासी ()
26	48//1 min	निजी	कृषि	0.2656	मैसर्स सुपर प्लास्टिक कोटस प्रा० लि० कर्ता डायरेक्टर प्रवीन बंसल रिलेसनशिप सेन्ट्रल मार्केट वेस्ट पंजाबी बाग दिल्ली ()
27	48//10 min	सरकारी(ग्राम सभा)	कृषि	0.0759	सरकारी (ग्रामसभा) ()
28	48//12 min	निजी	कृषि	0.1138	राजेन्द्र सिंह, गोपीराम, धर्मपाल पुत्रगण खजान सिंह 1/2 भाग, धर्मवीर सिंह, महेंद्र सिंह चेताराम, कृषण कुमार

					पुत्रगण लाल चन्द समभाग 4/10 भाग, ग्रामवासी, श्रीमती मीनाक्षी गिरिधर पत्नी संजय गिरिधर, श्रीमती किरण गिरिधर पत्नी सुनील कुमार आर/ओ एच. नं. 699 ए नवादा बाजार नजफगढ़ नई दिल्ली, 1/10 भाग ()
29	48//13 min	निजी	कृषि	0.2403	राजेन्द्र सिंह, गोपीराम, धर्मपाल पुत्रगण खज़ान सिंह 1/2 भाग, धर्मवीर सिंह, महेंद्र सिंह चेताराम, कृष्ण कुमार पुत्रगण लाल चन्द समभाग 4/10 भाग, ग्रामवासी, श्रीमती मीनाक्षी गिरिधर पत्नी संजय गिरिधर, श्रीमती किरण गिरिधर पत्नी सुनील कुमार आर/ओ एच. नं. 699 ए नवादा बाजार नजफगढ़ नई दिल्ली, 1/10 भाग ()
30	48//17//1 min	निजी	कृषि	0.0886	मैसर्स ट्रॉफी टेक्सटाइल्स प्रा० लि० मार्फत सिग्नेचरी श्री अमूल्य कुमार शर्मा 15 ओरंगजेब रोड नई दिल्ली 1/1 भाग ()
31	48//17//2 min	निजी	कृषि	0.0885	जोगेन्द्र, सुनील, जयवीर पुत्रगण, बाला, पूनम पुत्रीयां राजसिंह समभाग ग्रामवासी ()
32	48//18 min	निजी	कृषि	0.1644	जोगेन्द्र, सुनील, जयवीर पुत्रगण, बाला, पूनम पुत्रीयां राजसिंह समभाग ग्रामवासी ()
33	48//2 min	निजी	कृषि	0.0253	मैसर्स सुपर प्लास्टिक कोटस प्रा० लि० कर्ता डायरेक्टर प्रवीन बंसल रिलेसनशिप सेन्ट्रल मार्केट वेस्ट पंजाबी बाग दिल्ली ()
34	48//24 min	निजी	कृषि	0.0253	मैसर्स ट्रॉफी टेक्सटाइल्स प्रा० लि० मार्फत सिग्नेचरी श्री अमूल्य कुमार

					शर्मा 15 ओरंगजेब रोड नई दिल्ली ()
35	48//25 min	सरकारी(ग्राम सभा)	कृषि	0.1012	सरकारी (ग्रामसभा) ()
36	48//8 min	निजी	कृषि	0.0126	राजेन्द्र सिंह, गोपीराम, धर्मपाल पुत्रगण खज़ान सिंह 1/2 भाग, धर्मवीर सिंह, महेन्द्र सिंह चेताराम, कृष्ण कुमार पुत्रगण लाल चन्द समभाग 4/10 भाग, ग्रामवासी, श्रीमती मीनाक्षी गिरिधर पत्नी संजय गिरिधर, श्रीमती किरण गिरिधर पत्नी सुनील कुमार आर/ओ एच. नं. 699 ए नवादा बाजार नजफगढ़ नई दिल्ली, 1/10 भाग ()
37	48//9 min	निजी	कृषि	0.2782	राजेन्द्र सिंह, गोपीराम, धर्मपाल पुत्रगण खज़ान सिंह 1/2 भाग, धर्मवीर सिंह, महेन्द्र सिंह चेताराम, कृष्ण कुमार पुत्रगण लाल चन्द समभाग 4/10 भाग, ग्रामवासी, श्रीमती मीनाक्षी गिरिधर पत्नी संजय गिरिधर, श्रीमती किरण गिरिधर पत्नी सुनील कुमार आर/ओ एच. नं. 699 ए नवादा बाजार नजफगढ़ नई दिल्ली, 1/10 भाग ()
38	49//4/1 min	निजी	कृषि	0.0126	मेसेर्ज रुद्रप्रिय रियल एस्टेट प्रा ० लि ० कार्यालय 12 रिंग रोड लाजपत नगर दिल्ली मार्फत सिगनेचरी महेश कुमार अग्रवाल S/o राधा रमण अग्रवाल 1/3 भाग ()
39	49//5/1 min	निजी	कृषि	0.0632	मेसेर्ज रुद्रप्रिय रियल एस्टेट प्रा ० लि ० कार्यालय 12 रिंग रोड लाजपत नगर दिल्ली मार्फत सिगनेचरी महेश कुमार अग्रवाल S/o राधा रमण अग्रवाल 1/3 भाग ()

40	49//5/2 min	निजी	कृषि	0.1138	जीत सिंह, संजय पुत्र मेहर सिंह उर्फ दयानन्द समभाग ग्रामवासी ()
41	51//4 min	सरकारी(ग्राम सभा)	कृषि	0.0126	सरकारी (ग्रामसभा) ()
			कुल	4.6665	

[फा. सं. PIU/UER-II/01/05/3A1/3D1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2020

S.O. 262(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1211(E) dated 07th March 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH344N on the stretch of land from Km 0 to Km 7 in the district of WEST in the state of DELHI.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India” and “Dainik Jagran” both dated 14th March 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH344N in the stretch of land from Km. 0 to Km. 7 in the district of WEST in the State of DELHI.

State: DELHI		District: WEST			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Punjabi Bagh					
Village: Neelwal					
1	152 min	Government(Gram Sabha)	Rasta	0.0885	Govt. (Gramsabha)
2	233 min	Government(Gram Sabha)	Rasta	0.1012	Govt (Gramsabha)

3	38//15/2 min	Private	Agriculture	0.0042	Harish, Bijendra, Sonu Ss/o Puran Singh / Govt. 38//15/2
4	38//16 min	Private	Agriculture	0.215	Harish, Bijendra, Sonu Ss/o Puran Singh 38//16
5	39//16 min	Private	Agriculture	0.1518	Roshan Lal S/o Lajje Ram 6/10 bhag, Surat Singh S/o Lajeram 1/10 bhag, Naresh Kumar, Ashok Kumar Bhardwaj, Jay Prakash Ss/o Hukam Chand sambhag 1/10 Bhag, Jeevan Lal S/o Lajeram 1/10 bhag, Anup Singh S/o Lajejaram 1/10 bhag, Gramvasi 39//16
6	39//17 min	Private	Agriculture	0.2023	Kamaljeet Khosla S/o Premchand Khosla R/o 13/19 Punjabi Bagh Delhi 39//17
7	39//18/2 min	Private	Agriculture	0.2529	Dev Kishan Khosla S/o Premchand Khosla R/o 13/19 Punjabi Bagh Delhi 39//18/2
8	39//19 min	Private	Agriculture	0.2909	Balwan Singh, Ramchandra, Jaikaran, Santram Ishwar Singh, Ajit Singh Ss/o Prabhu sambhag bhag Gramvasi and Govt. 39//19
9	39//20 min	Private	Agriculture	0.2909	Balwan Singh, Ramchandra, Jaikaran, Santram Ishwar Singh, Ajit Singh Ss/o Prabhu sambhag Gramvasi and Govt. 39//20
10	39//23 min	Private	Agriculture	0.0253	Kamaljeet Khosla S/o Premchand Khosla R/o 13/19 Punjabi Bagh Delhi and Govt. 39//23
11	39//24 min	Private	Agriculture	0.0759	Naval Kishore Khosla S/o Premchand Khosla 13/19 Punjabi Bagh Extension 39//24
12	39//25 min	Private	Agriculture	0.1012	Naval Kishore Khosla S/o Premchand Khosla 13/19 Punjabi Bagh Extension
13	40//18/1 min	Private	Agriculture	0.0042	Bhagirath Lal S/o Harde Ram, 1/6 Bhag, Dharmendra Kumar, Pawan Kumar Ss/o Ravi Prakash sabhag 1/6 Bhag, Gyan Prakash, Ghanshyam Ss/o Deshram sambhag 1/3 bhag, Sushil Kumar son Krishna Kaum Brahmin 1/3 bhag Gramvasi
14	40//18/2 min	Government(Gram Sabha)	Agriculture	0.0126	Govt (Gramsabha)
15	40//18/3 min	Private	Agriculture	0.0042	Wazir Singh, Lakhmi Chand Ss/o Rati Ram division 1/3 bhag, Gaurav

					(minor) S/o Dilbag Singh 1/6 bhag, Jai Vir Singh, Jasvir Singh Baljit Singh Ss/o Chandra Bhan division 1/2 bhag, Gramvasi
16	40//19 min	Private	Agriculture	0.0379	Wazir Singh, Lakhmi Chand Ss/o Rati Ram division 1/3 bhag, Gaurav (minor) S/o Dilbag Singh 1/6 bhag, Jai Vir Singh, Jasvir Singh Baljit Singh Ss/o Chandra Bhan division 1/2 bhag, Gramvasi
17	40//20 min	Private	Agriculture	0.0885	Wazir Singh, Lakhmi Chand Ss/o Rati Ram division 1/3 bhag, Gaurav (minor) S/o Dilbag Singh 1/6 bhag, Jai Vir Singh, Jasvir Singh Baljit Singh Ss/o Chandra Bhan division 1/2 bhag, Gramvasi
18	40//21 min	Private	Agriculture	0.1771	Wazir Singh, Lakhmi Chand Ss/o Rati Ram division 1/3 bhag, Gaurav (minor) S/o Dilbag Singh 1/6 bhag, Jai Vir Singh, Jasvir Singh Baljit Singh Ss/o Chandra Bhan division 1/2 bhag, Gramvasi
19	40//22 min	Private	Agriculture	0.215	Baljit Singh, Ajit Singh, Tareef, Pradeep Ss/o Jaisingh Sambhag Gramvasi
20	40//23 min	Private	Agriculture	0.2403	JAI SINGH S/o Harlal Gramvasi
21	40//24 min	Private	Agriculture	0.2403	Sunny son Ranveer Singh villager Nilwal 1/3 bhag, M/s Rudrapriya Real Estate Pvt Ltd 12 Ring Road Lajpat Nagar Delhi via Signature of Shri Harish Kapoor Son J. Raj Kapoor 12 Ring Road Lajpat Nagar Delhi 2/3 bhag
22	40//25/1 min	Private	Agriculture	0.1012	M/s Rudrapriya Real Estate Pvt Ltd 12 Ring Road Lajpat Nagar Delhi via Signature of Mahesh Kumar Agarwal S/o Radha Raman Agarwal 12 Ring Road Lajpat Nagar Delhi
23	40//25/2 min	Private	Agriculture	0.0506	Jeet Singh, Sanjay S/o Mehar Singh urf Dayanand Sambhag Gramvasi
24	40//29	Private	Non Agriculture	0.0084	Wazir Singh, Lakhmi Chand Ss/o Rati Ram division 1/3 bhag, Gaurav (minor) S/o Dilbag Singh 1/6 bhag, Jai Vir Singh, Jasvir Singh Baljit Singh Ss/o Chandra Bhan division 1/2 bhag, Gramvasi
25	41//21 min	Private	Agriculture	0.0042	Jeet Singh, Sanjay S/o Mehar Singh urf Dayanand Sambhag Gramvasi
26	48//1 min	Private	Agriculture	0.2656	M/s Super Plastic Coats Pvt. Ltd. Director Praveen Bansal Central Market West Punjabi Bagh Delhi
27	48//10 min	Government(Gram Sabha)	Agriculture	0.0759	Govt (Gramsabha)
28	48//12 min	Private	Agriculture	0.1138	Rajender Singh, Gopiram, Dharmpal sons of Khazan Singh 1/2 bhag,

					Dharamvir Singh, Mahendra Singh Chetram, Krishan Kumar, Ss/o Lal Chand sambhag 4/10 bhag, Gramvasi, Smt. Meenashi Giridhar wife of Sanjay Giridhar, Kiran Giridhar wife of Sunil Kumr R/o H. No. 699A Navada Bazar Najafgarh New Delhi, 1/10 Bhag
29	48//13 min	Private	Agriculture	0.2403	Rajender Singh, Gopiram, Dharmpal sons of Khazan Singh 1/2 bhag, Dharamvir Singh, Mahendra Singh Chetram, Krishan Kumar, Ss/o Lal Chand sambhag 4/10 bhag, Gramvasi, Smt. Meenashi Giridhar wife of Sanjay Giridhar, Kiran Giridhar wife of Sunil Kumr R/o H. No. 699A Navada Bazar Najafgarh New Delhi, 1/10 Bhag
30	48//17//1 min	Private	Agriculture	0.0886	M / s Trophy Textile Pvt. Ltd. via Signatchery Mr. Amulya Kumar Sharma 15 Orangzeb Road New Delhi
31	48//17//2 min	Private	Agriculture	0.0885	Jogendra, Sunil, Jaiveer sons, Bala, Poonam daughters Raj Singh sambhag
32	48//18 min	Private	Agriculture	0.1644	Jogendra, Sunil, Jaiveer sons, Bala, Poonam daughters Raj Singh sambhag
33	48//2 min	Private	Agriculture	0.0253	M/s Super Plastic Coats Pvt. Ltd. Director Praveen Bansal Central Market West Punjabi Bagh Delhi
34	48//24 min	Private	Agriculture	0.0253	M / s Trophy Textile Pvt. Ltd. via Signatchery Mr. Amulya Kumar Sharma, 15 Orangzeb Road New Delhi
35	48//25 min	Government(Gram Sabha)	Agriculture	0.1012	Govt (Gramsabha)
36	48//8 min	Private	Agriculture	0.0126	Rajender Singh, Gopiram, Dharmpal sons of Khazan Singh 1/2 bhag, Dharamvir Singh, Mahendra Singh Chetram, Krishan Kumar, Ss/o Lal Chand sambhag 4/10 bhag, Gramvasi, Smt. Meenashi Giridhar wife of Sanjay Giridhar, Kiran Giridhar wife of Sunil Kumr R/o H. No. 699A Navada Bazar Najafgarh New Delhi, 1/10 Bhag
37	48//9 min	Private	Agriculture	0.2782	Rajender Singh, Gopiram, Dharmpal sons of Khazan Singh 1/2 bhag, Dharamvir Singh, Mahendra Singh Chetram, Krishan Kumar, Ss/o Lal Chand sambhag 4/10 bhag, Gramvasi, Smt. Meenashi Giridhar wife of Sanjay Giridhar, Kiran Giridhar wife of Sunil Kumr R/o H. No. 699A Navada Bazar Najafgarh New Delhi, 1/10 Bhag

38	49//4/1 min	Private	Agriculture	0.0126	M/s Rudrapriya Real Estate Pvt Ltd Office 12 Ring Road Lajpat Nagar Delhi Authorised Signatory Mahesh Kumar Aggarwal S / o Radha Raman Aggarwal 1/3 bhah Baki Badrastu 2/3 bhag Salam Khata
39	49//5/1 min	Private	Agriculture	0.0632	M/s Rudrapriya Real Estate Pvt Ltd Office 12 Ring Road Lajpat Nagar Delhi Authorised Signatory Mahesh Kumar Aggarwal S / o Radha Raman Aggarwal 1/3 bhah Baki Badrastu 2/3 bhag Salam Khata
40	49//5/2 min	Private	Agriculture	0.1138	Jeet Singh, Sanjay S/o Mehar Singh urf Dayanand Sambhag Gramvasi
41	51//4 min	Government(Gram Sabha)	Agriculture	0.0126	Govt (Gramsabha)
			TOTAL	4.6665	

[F. No. PIU/UER-II/01/05/3A1/3D1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.